### SADHNA BROADCAST LIMITED

### [Formerly known as Chirau Broadcast Network Limited]

CIN: L92100DL1994PLC059093

Date: 04th February, 2019

To,

BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai- 400001 Metropolitan Stock Exchange Limited 4rth Floor, Vibhgyog Tower, Opposite Trident Hotel, Bandra Kurla Complex Mumbai-400098

Sub: Newspaper Advertisement under Regulation 47 read with Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sirs,

With reference to the above captioned subject, please find enclosed herewith the clippings of the English newspaper "Financial Express" and Hindi Newspaper "Jansatta" dated 2<sup>nd</sup> February in which notice for Board Meeting has been published. The meeting of the Board will be held on 14<sup>th</sup> February, 2019 at 4:00 P.M. at registered office of the Company to consider and take on record the unaudited Financial Results for the quarter ended 31<sup>st</sup> December, 2018 and any other businesses as may be considered necessary.

This is for your kind information and record please.

oso

Thanking You.

For and on behalf of

For Sadhna Broadcast Limited

Name: Tajinder Kaur

DIN: 06799570

Designation: Director Address: 302- A, LIG Flats,

Pkt D-6, Sec-6, Rohini, Delhi- 110085

Phone: 91-11-23552627, Fax No.: 91-11-23524610

**PTC** India

financial results.

Place: New Delhi

Date: 01/02/2019

PTC India Ltd.

Regd. Office: 2nd Floor, NBCC Tower,

15, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110 066

(CIN: L40105DL1999PLC099328)

Tel: 011- 41659500, 41595100, 46484200, Fax: 011-41659144

E-mail: info@ptcindia.com, Website: www.ptcindia.com

Corrigendum to notice of the Board Meeting

With reference to the notice published on 24th January, 2019 regarding holding

of Board Meeting on Wednesday, the 6th day of February, 2019 for approval of

un-audited financial results for the guarter ended December 31, 2018, this is

bring to your notice that the scheduled meeting has been postponed to

Thursday, the 7th day of February, 2019 for the same purpose. Further the

Trading Window shall remain closed till 48 hours after the disclosure of the said

OFFICE OF THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER

In reference to Abridged Tender Notice No. Co/Cat/248/1455 terms and conditions of the tender shall remain the same.

Dated: 01.02.2019

(Rajiv Maheshwari) Company Secretary

By order of the Board

For PTC India Ltd.

FCS-4998

# COMPANY SECRETARY

Required a qualified Company Secretary, fresher / experienced. Interested candidates may send their CV via email at: kdjajodia123@gmail.com or by post at K. D. Jajodia Steel Industries Private Limited, 3, Bentinck Street, Kolkata-700 001.

Stanpacks (India) Limited Regd.Off: "S.K. ENCLAVE" New No. 4 (Old No. 47). Nowroji Road, Chelpet, Chennai 600 031. CIN: L36991TN1991PLC021888 Phone : 044 26461415 Website: www.blissgroup.com

Email: cs-sl@blissgroup.com

NOTICE NOTICE is hereby given that pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of SEBI of (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations 2015 a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, the 13th February, 2019 to consider and take on record the Unaudited Financial Results for the guarter ended 31st December, 2018. The information is available on website of the Company www.blissgroup.com &

the Stock Exchange website BSE Limited www.bseindia.com. By order of the Board For Stanpacks (India) Ltd Place : Chennai M. UMA MAHESWARI : 01.02.2019 Date Company Secretary

Sadhna Broadcast Limited (Formerly known as Chirau Broadcast Network Limited) Regd. Office: 37, Second Floor, Rani Jhansi Road, Motia Khan, Paharganj, Delhi- 110055

(E) cbnl.delhi@gmail.com (W) www.sadhnabroadcast.com CIN: L92100DL1994PLC059093, Phone: 91-11-23552627

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday 14th February, 2019 at 04.00 P.M. at the Regd. Office of the Company, interalia, to consider and take on record the unaudited Financial Results for the quarter ended 31st December, 2018 and any other

businesses as may be considered necessary. By order of the Board For Sadhna Broadcast Limited (Tajinder Kaur) Place: New Delhi Director DIN: 06799570 Nate: 01.02.2019 302 A, LIG Flats, Pkt D-6, Rohini, Delhi- 1100%

SPS INTERNATIONAL LIMITED CIN: L74140HR1993PLC031900 Regd. Office: Plot No. 197, Sector 68, I.M.T., Faridabad, Haryana- 121004 Tel No: 011-69999159, Email ID: radhamony.nair@gmail.com

Website: www.spsintl.co.in

ADVANCE INTIMATION OF BOARD MEETING Notice is hereby given pursuant to Regulation 47(1) (a) of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of Board of Directors of SPS International Limited ("the Company") is scheduled to be held on Tuesday, 12th day of February, 2019 at 4:00 P.M. at the registered office of Company at Plot No. 197, Sector 68, I.M.T., Faridabad, Haryana- 121004 inter alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results along with Limited Review Report of the Company for the Quarter

For SPS International Limited (Komal Jain) (Company Secretary & Compliance Officer) **Date:** 01<sup>st</sup> Feb, 19 Place: Faridabad

and nine months ended on 31st December, 2018.

Notice is hereby given that the share certificates No(s) 787327 for 50 shares bearing distinctive No(S) 103022222 103022271 standing in the name(s) of Mr. Hemant G. Nadkarni & Mrs. Varsha H. Nadkarni in the books of M/S Finolex Ind. Ltd., has / have been lost / misplaced / destroyed & the advertiser has/have applied to the company for issue of duplicate share certificate(S) in lieu thereof. any person(s) who has / have claim(S) on the said shares should lodge such claim(S) with the companys Registrars & Transfer Agentsx viz karvy computer shares Pvt. limited, karvy selenium tower B, plot number 31 & 32, Financil District Gachibowli, Hydrabad 500 032 within 15 days from the date of this notice failing which the company will proceed to issue duplicate shares certificate(s) in respect of the said shares.

Date 2/2/2019, Place Pune Name of the Shareholder(s) Mr. & Mrs. Nadkarni

RAJKAMAL SYNTHETICS LIMITED CIN: L17111MH1981PLC024344 Registered Office: 411 Atlanta Estate Premises Co. Op. Soc. Ltd., G. M. Link Road,

Goregaon (E), Mumbai-400063 Tel No.:- 022-4023 8226; Email: - rajkamalsynthetics@gmail.com; Website: - www.rajkamalsynthetics.com

regulation 29 read with regulation 47 of the o Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements Regulations, 2015, a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, February 13, 2019 at 4.00 p.m. to inter alia, consider and approve the unaudited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended on December 31, 2018 The said information is also available on the website of the company as www.rajkamalsynthetics.com and at the website of stock exchange at www.bseindia.com.

> For Rajkamal Synthetics Limited **Ankur Ajmera Managing Director**

DIN: 07890715 Place: Mumbai Dated: February 01, 2019

AUTO PINS (INDIA) LIMITED Registered Office: 2776 Pyarelal Motor Market Kashmere Gate, Delhi-110006 Landline: (91)-11-23978748 CIN: L34300DL1975PLC007994

Web: http://www.autopinsindia.com E-Mail: autopins@vsnl.com NOTICE Pursuant to Regulation 29 read with Regulation

47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is hereby informed that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, 14th February, 2019 at 3:00 P.M. at the Registered Office of the Company at 2776 Pyarelal Motor Market Kashmere Gate, Delhi-110006, to consider and approve, inter-alia, the unaudited Standalone Financial Results of the Company for the nine months & third quarter ended 31st December.

Pursuant to the Company's Code of Conduct framed in accordance with SEBI (Prohibition of Insider Frading) Regulations, 2015 ('the code'), Trading Window for dealing in shares of the Company, for persons specified under the Code, shall remain closed from Wednesday, February 06, 2019 to Saturday, February 16, 2019, (both days inclusive). The said notice may be accessed on the Company's website www.autopinsindia.com and

of the Stock Exchange website www.bseindia.com By Order of the Board For Auto Pins (India) Limited

Manisha Goswami Place: Delhi Company Secretary & Date: 01.02.2019 Compliance Officer

KAMA HOLDINGS LIMITED CIN: L92199DL2000PLC104779

Noida Link Road, Mayur Vihar Phase I Extn, Delhi - 110091

Corporate Office: Block C, Sector 45, Gurugram-122003

KAMA Holding Registered Office: The Galleria, DLF Mayur Vihar, Unit No. 236 & 237, 2nd Floor, Mayur Place,

Tel. No: (+91-124) 4354400 • Fax: (+91-124) 4354500 Email: info@kamaholdings.com website: www.kamaholdings.com

## NOTICE

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 and other applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the KAMA Holdings Limited will be held on Tuesday, the 12th February, 2019 inter-alia, to approve the unaudited financial results for the guarter and nine months ended 31st December, 2018.

This Information is also available on the Company's website i.e. www.kamaholdings.com and also on the websites of the BSE Limited www.bseindia.com, Stock Exchange where Company's shares are listed.

for KAMA HOLDINGS LIMITED

RAJAT LAKHANPAL

(Authorized Officer) Axis Bank Ltd.

(Whole Time Director, Chief Financial Officer Place: Gurugram Date: February 01, 2019 & Company Secretary)

AXIS BANK SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY

Expressway, Jaypee Greens Wishtown, Noida (U.P.)-201301 Controlling office: Axis House, Bombay Dyeing Compound, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai- 400025 Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and

Axis Bank Limited, Axis House, Tower-2, 2nd Floor, I-14, Sector-128, Noida

Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) the the below described immovable property mortgaged/charged to the secured creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of Secured Creditor will be sold on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" basis on 14-03-2019 on 11.30 a.m. at Axis House, Tower-2, 2nd Floor, I-14, Sector-128, Noida Expressway, Jaypee Greens Wishtown, Noida (U.P.) 201301 for recovery of Rs.1,24,00,000/- due as on 25-01-2019 along with further interest as applicable incidental expenses, costs, charges etc incurred up to the date of actual payment and/or realization due to the secured creditor from M/S Kumar Infra projects Private Limited, Mr. Narinder Kumar and Mrs. Indu Bala. The reserve price will be Rs.1,00,00,000/- and the earnest money deposit will be Rs.10,00,000/ Last Date, Time And Venue For Submission Of Bids With Sealed Offer/Tender With EMD on 13-03-2018

at the above mentioned address. Location / Details of the Immovable Property/ Account Secured Assets possessed and put for sale Number 915030028962588 1.Equitable mortgage of residential property admeasuring 1725 Sq Fee alongwith lawn area of 238 Sq Feet at Ground Floor, Apartment No. K-004, Block SME (Over draft Business M Power J-1 , Golf Greens , Plot No. GH-6 , Crossing Republic , Village Dundahera Ghaziabad, Uttar Pradesh in the name of Mr. Narinder Kumar and Ms Indu Bala. Scheme) 2. Equitable mortgage of Residential property admeasuring 1725 Sq Fee Encumbrances, alongwith lawn area of 352 Sq Feet at Ground Floor, Apartment No. K-005, Block if any known J-1 . Golf Greens . Plot No. GH-6 . Crossing Republic , Village Dundahera to the Bank. Ghaziabad, Uttar Pradesh in the name of Ms Indu Bala.

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in the secured creditor's website i.e. https://www.axisbank.com/auction-notices/

SHRI MATA VAISHNO DEVI SHRINE BOARD, KATRA **EXTENSION OF TENDER NOTICE** 

dated 21.12.2018, the last date for submission of tender from Principal Firms/ Authorized Franchisees/ Firms/ any individual for providing Catering Services at Bhojanalaya Vaishnavi Dham, Rail Head Complex, Jammu of Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board, on leave and License basis and "On as is where is basis" is hereby further extended upto 7th of February, 2019, 1500 hrs. The other

No.: CO/Cat/248/1651

Sd/- (Dr. Arvind Karwani), KAS, Dy. Chief Executive Officer.

PANKAJ POLYMERS LIMITED Regd. Office: Vth Floor, 'E' Block, 105, Surya Towers Sardar Patel Road, Secunderabad - 500 003. Ph: 040-27897743, CIN: L24134TG1992PLC014419 Email ID: info@pankajpolymers.com Website: www.pankajpolymers.com

NOTICE

Notice pursuant to Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015) is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 12th February 2019 inter-alia to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter ended 31st December 2018.

for PANKAJ POLYMERS LIMITED

MANAGING DIRECTOR

(Sd/-) Rajarajeswaramma Sribalusu

**Managing Director** 

Place: Secunderabad Date: 31.01.2019

PANKAJ GOEL

Sri Sarvaraya Sugars Limited CIN:U01115TN1956PLC003435

Regd. Office: 12, ETHIRAJ SALAI, EGMORE, CHENNAI 600008, **TAMIL NADU, INDIA. Phone: 044 28276182** Email: chennai@srisarvarayasugars.in **NOTICE OF BOARD MEETING** 

Notice is hereby given that pursuant to clause 29(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company is convened on Monday, February 11th, 2019 at 11.00 a.m. at the Registered Office at 12, Ethiraj Salai, Egmore, Chennai 600 008 to consider inter-alia the unaudited financial results of the Company for the quarter ended on 31st December, 2018. For Sri Sarvaraya Sugars Limited

Place : Chennai Dated: 02.02.2019

**GLOBUS SPIRITS LIMITED** 

REGISTERED OFFICE: F-0, GROUND FLOOR, THE MIRA CORPORATE SUITES, PLOT NO. 1 &2, ISHWAR NAGAR MATHLIRA ROAD NEW DELHI-110065

In terms of the Clause 29(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that the next meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, the 7<sup>th</sup>February, 2019, inter-alia, to consider and take on record the Un-audited financial results of the Company for the 3<sup>rd</sup>Quarter and Nine Months ended on

**NOTICE** 

The said notice is also available on the company's website www.globusspirits.com and also available on BSE & NSE website.

Dated: 31st January, 2019

For Globus Spirits Limited Santosh Kumar Pattanayak

(Company Secretary) **SVARAJ TRADING AND AGENCIES LIMITED** 

**CIN:** L51100MH1980PLC022315 Registered off.: Office No. 30, 2nd floor 380/82 Amruteshwar CHSL, Jagannath Sunkersett Road, Mumbai-400002

E -mail id: svarajtradingagencies@gmail.com; Website: www. svarajtrading.com **NOTICE** 

Notice is hereby given that pursuant to the regulation 29 read with regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the company will be held on Tuesday, February 12, 2019 at 4.00 p.m. at registered office of the company at Office No. 30, 380/82 Amruteshwar Co-operative Housing Society Ltd. 2nd Floor, Jagannath Sunkersett Road, Mumbai, Maharashtra 400002. to, inter alia, consider and approve the Un-audited Financial Results of the company for the quarter and nine months ended December 31, 2018.

The said information is also available on the website of the company at www.svarajtrading.com and may also be available on Stock Exchange at www.bseindia.com.

For **SVARAJ TRADING AND AGENCIES LIMITED** 

HARENDRA KUMAR GUPTA

Place: Mumbai Date : February 01, 2019

**Managing Director** DIN: 05335662 S V TRADING AND AGENCIES LIMITED

CIN: L51900MH1980PLC022309 Registered off. Shop No.006, Building No. 1, Vasant Aishwarya, C.H.S .Ltd Mathuradas Ext. Road, Kandivali (W), Mumbai - 400 067. E-mail id: svtradingandagencies@gmail.com, Website:www. svtrading.co.in

**NOTICE** Notice is hereby given that pursuant to the regulation 29 read with regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the company will be held on Tuesday, February 12, 2019 at 2:00 p.m. at registered office, Shop No. 06, Building No. 01, Vasant Aishwarya CHSL, Mathuradas Extn.

Road, Kandivali (West), Mumbai - 400067 to, inter alia, consider and approve the Un-audited Financial Results of the company for the guarter and nine months ended December 31, 2018. The said information is also available on the website of the company at www.svtrading.co.in and may also be available on Stock Exchange at www.bseindia.com.

Place: Mumbai

**GOPAL LAL PALIWAL Managing Director** DIN: 06522898

For S V TRADING AND AGENCIES LIMITED



**Dated :** February 01, 2019

Model Colony Branch: 479/5, Sadhana. H. K. M. Road, Model Colony, Shivajinagar, Pune 411005. Ph. 020 -25655428, 25660636 Fax: 020-25661283 Email: bom750@mahabank.co.in

### POSSESSION NOTICE WHEREAS, the undersigned being the Authorised Officer of the Bank of

Maharashtra under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 8 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a Demand Notice dated 30/11/2018 calling upon the Borrower M/S. Siddhi Constructions through its partners 1) Mr. Rupesh Vasantrao Bhadule, 2) Mrs. Shailaja Rupesh Bhadule to repay the amount mentioned in the Notice being Rs. 3,23,73,083.00 (Cash Credit) plus interest @12.5% p.a. on Cash Credit with monthly rest w.e.f. 30/11/2018 apart from penal interest, cost and expenses, within 60 days from the date of the said Notice.

The Borrower M/S Siddhi Constructions having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower and the Public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the properties described herein below in the exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on this 31/01/2019.

The Borrowers in particular and the Public in general is hereby cautioned not to deal with the properties and any dealings with the properties will be subject to the charge of the Bank of Maharashtra, Model Colony Branch for an amount

The Borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of Immovable Property 1. Flat No. A-18, 5th Floor, Building A, Surobhi Enclave, Plot No. 165.1.2. Nagras Road, Aundh, Pune-411007 admeasuring 8.40 sgm.

Built up area. Office No. 301, admeasuring 57.15 sqm built up area on 3rd floor, Bhakti Plaza Building S. No. 2, Hissa No 6A/2/1, 6A/2/2A, C.T.S. No.

2549, Aundh, Pune -411007. Asst. Gen. Manager & Authorised Officer, Date : 31/01/2019 Model Colony Branch Place : Aundh

Govt. upto 18.00 Hrs. on 06.02.2019 for the following work.

Name of Work

Providing / laying 50mm thick

BM and 25mm thick semi

dense bituminous concrete on

Pamposh Colony road Sector -

4 from Sawagat Showroom

upto Park incl. link upto H/o O.N. Rana and adjoining link

road of Dumi Bantalab road

Providing / laying of 50mm thick

(compacted) premix BM 25mm

thick open semi dense bitumi-

nous concrete on Paloura Top

Date of Publishing from 28.01.2019.

and Suraksha Vihar, Jammu.

06.02.2019 (18.00 hrs).

No.: 17375-89

**DIPJ-4981** 

Dated: 25.01.2019

under CRF (P-Ist).

OFFICE THE EXECUTIVE ENGINEER PWD (R&B) CONST. DIV. NO. II, JAMMU

Name of

Division

**PWD** 

Const.

(R&B)

Const

Divn. No. I

Divn. No. I

**NOTICE INVITING TENDER** 

e-NIT No. 159 of 2018-19 Dated 25-01-2019

of J&K State, invite tenders by e-tendering mode from approved and eligible contractors registered with J&K State

Cost

(Rs. in

Lacs)

47.94

Executive Engineer PW (R&B) Construction Division No. II, Jammu Department Jammu on behalf of Governo

Estimated Cost of Earnest

Document

(in Rs.)

1000/-

1000/-

The Bidding documents can be downloaded from the website http://iktenders.gov.in from on 28.01.2019 to

Money

(in Rs.)

2% of

the

dvertised

cost

2% of

the

advertised

cost

Time

Allowed

Completion

Time and

date of

Opening

of Tender

07.02.2019

1400 hours

07.02.2019

1400 hours Contractor

Class of

**Contractors** 

'A'- Class

Contractor/

Hot Mix

Plan Holder

'A'- Class

Hot Mix

Plan Holder

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL CRANEX LIMITED (Area of Jurisdiction-Part of Uttar Pradesh)

CIN: L74899DL1973PLC006503. Registered Office: 9. DDA Market, Katwaria Sarai. immons for filling Reply & appearance by Publication Opposit Qutab Hotel, New Delhi -110016

Works: 57/1, Site-IV, Industrial Area. Date: 17.12.18 |Summons to Defendant Uls-19 (3) of the recovery of debts due Sahibabad (U.P.)-201010 to Banks and Financial Institutions Act, 1993 read with Rules Ph: 0120-3240427, 4167628 2 & 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules 1993). Fax: 91-120-4167630 Website: www.cranexltd.com .....Applicant Email: cranex1@yahoo.com, info@cranexltd.com M/s Sahyog Technobuild Pvt. Ltd. & others

NOTICE

n Compliance of Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is hereby informed that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, 14th February, 2019 at 04:30 P.M. at the Corporate Office of the Company at 57/1 Industrial Area, Site IV, Sahibabad -201010 (UP) to consider and approve, inter-alia, the Unaudited Standalone Financial Results of the Company for the Third quarter and Nine Month ended 31 December, 2018. Pursuant to the Company's Code of Conduct

framed in accordance with SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 ('the code'), Trading Window for dealing in shares of the Company, for persons specified under the Code, shall remain closed from Wednesday, 06th February, 2019 to Friday, 15th February, 2019 (both days The said notice may be accessed on the

Company's website at www.cranexltd.com and may also be accessed on the Stock Exchange at By Order of the Board For Cranex LIMITED

Place: New Delhi

Prakash Kedia

Company Secretary

& Compliance Officer

Debts Recovery Tribunal, Lucknow Date: 01.02.2019

Original Application No. 891 of 2018

1. M/s Sahyog Technobuild Pvt. Ltd. (Borrower)

Technobuild Pvt. Ltd. (Borrower) having

Corporate Office at E-30, Sector-3, Noida, U.p.

201301, Through its Directors 3, Mr. Sanjay

Agarwal, (Director/Guarantor/ Mortgagor) S/o

Shri Chandra Prakash Agarwal, R/o A-44, Sector-

36, Noida-201301, District- Gautam Buddh Nagar

U.P. 4. Mr. Jitendra Agarwal (Director/ Guarantor/

Mortgagor) S/o Late Shri P.D. Agarwal, R/o A-63,

Sector-36, Noida-201301, District-Gautam Buddh

Nagar, U.P. 5. Mrs. Rashmi Agarwal,

(Director/Guarantor/ Mortgagor) W/o Shri Sanjay

Agarwal, R/o A-44, Sector-36, Noida-201301,

District- Gautam Buddh Nagar, U.P. 6. Mrs. Madhu

Agarwal, (Director/Guarantor/ Mortgagor) W/o

Mr. Jitendra Aganwal R/o A-63, Sector-36, Noida-

n the above noted applications, you are required to

file reply in paper book from in two sets along with

through your duly authorized agent or legal

documents and affidavits (if any), personally or

practitioner in this Tribunal, after serving copy of the

same on the applicant or his counsel/duly authorized

agent after publication of the summons, and

hereafter to apear before the Tribunal on 13.02.19

at 10.30 A.M. failing which the applicant shall be

heard and decided in your absence.

**Specification** 

201301, District-Gautam Buddh Nagar, U.P.

having its Registered Office at F-26, Okhla Industrial

Area, Phase-I, New Delhi- 110020 2, M/s Sahyog

ASREC (India) Limited

PSPCL Punjab State Power Corporation Limited

Regd Office: PSEB Head Office, The Mall, Patiala - 147001 CIN: U40109PB2010SGC033813, Website: www.pspcl.in **TENDER ENQUIRY NO. 244 DT. 29.01.2019** 

SHORT DESCRIPTION: Design, Manufacture, Testing, Supply, Delivery,

Replacement & Commissioning under Firm's Supervision of 4 Nos. Tubular Battery Banks each of 220V, 300Ah at 10 hr rate in transparent, SAN containers along with Tools and Accessories for UBDC Hydel Project. Start Date for Downloading of : 05.02.2019

**Date and Time upto which Tender** : 05.03.2019 (11.00 A.M.) can be Downloaded **Date and Time upto which Tender** : 06.03.2019 (11.00 A.M.) Date and Time of Opening of Tender: 06.03.2019 (11.30 A.M.)

EMD: @2% of Tender Value rounded off to a multiple of Rs. 10/- on the higher side subject to a min. of Rs. 10,000/- and a max. of Rs. It is informed that in case tender process is not completed due to any reason, no corrigendum will be published in Newspapers. Details regard-

https://pspcl.abcprocure.com. Tender Specification along with detailed terms and conditions can only be downloaded from website https://pspcl.abcprocure.com. Details regard-

ing corrigendum may be seen on official. PSPCL e-tendering website:

ing E-Tendering is available on website www.pspcl.in. All the prospective bidders are requested to get their Digital Signatures. Registered themselves on the website https://pspcl.abcprocure.com and get conversant with the process of on-line submission of tenders well in time so as to submit the tender by the due deadline. No request for extension in due date of tender opening on the above ground shall be entertained.

CE/HYDEL PROJECTS, PSPCL, PATIALA. C-64/19

> FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT

[Under regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016] For the attention of the Creditors of M/s Alchemist Township India Ltd Relevant Particulars

1.	Name of the corporate debtor	M/s Alchemist Township India Ltd. 04.07.2006		
2.	Date of incorporation of corporate debtor			
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	ROC-Delhi		
4.	Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor			
5.		Flat No. 1511 (Front Portion), Hemkunt Chambers, 89 Nehru Place, New Delhi-110019		
6.	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	25.01.2019		
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution Process	180 Days from the Date of Commencement of Insolvency Resolution Process which is 24.07.2019		

8. Name and Registration Number of the Pramod Goel Insolvency Professional acting as IBBI Registration No.:

Interim Resolution Professional IBBI/IPA-001/IP-P00282/2017-18/10526 Address and Email of the Interim NIL 26AB, First Floor, Malviya Nagar, Resolution Professional, as registered New Delhi-110017 with the Board Email Id: pramodgoel@yahoo.co.in Address and Email to be used for B-220/2, 1st Floor, Right Side, Main Market.

correspondence with the Interim Savitri Nagar, Malviya Nagar, New Delhi-Resolution Professional Email:ip.alchemisttown@gmail.com Last date for submission of claims 13.02.2019 (Date of submission of claim has been taken as 14 days from the date of receipt

of order to IRP on 30.01.2019) 12. Class of Creditors, if any, under clause Allottees under real estate project under (b) of sub-section (6A) of Section 21, section 5(8)(f) of Insolvency and Bankruptcy ascertained by the Interim Resolution Code, 2016 Professional 13. Name of Insolvency Professionals 1. Ram Kishore Maurya

identified to act as Authorised 2. Rakesh Kumar Gupta Representative of creditors in a class 3. Maya Gupta (Three names for each class) (a) Relevant Forms and a) Weblink: www.ibbi.gov.in/downloadform.html (b) Details of Authorised b) 1. Ram Kishore Maurya

Representatives are available at:

IBBI Registration No. : IBBI/IPA-001/IP-P00624/2017-18/11080 53 A, Pocket-A, MIG Flats, GTB Enclave, Delhi-110093 2. Rakesh Kumar Gupta IBBI Registration No.: IBBI/IPA-001/IP-P00833/2017-18/11418 701, Vikrant Tower No.4 Rajendra Place, New Delhi-110008

3. Maya Gupta IBBI Registration No. : IBBI/IPA-002/IP-N00363/2017-18/11061 3685/7, Narang Colony, Tri Nagar Delhi-110035 Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, New Delhi Bench has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the M/s Alchemist Township India

Ltd. on 25.01.2019 in C.P (IB)-1082(PB)/2018. The creditors of M/s Alchemist Township India Ltd, are hereby called upon to submit a proof of their

claims on or before 13.02.2019 to the interim resolution professional at the address mentioned The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other

creditors may submit the claims with proofs in person, by post or by electronic means. A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry no. 12, shall indicate its choice of authorized representative from among the three insolvency professionals listed against entry no. 13 to act as authorized representative of class (specify class) in Form CA. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. Pramod Goel Date: 31-01-2019 Interim Insolvency Professional

Place: New Delhi IBBI/IPA-001/IP-P00282/2017-18/10526

## बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

Patparganj Branch 5, Shree Balaji Complex, Near Mother Dairy Patpargani, Delhi-110092, India Phone: +91-011 22488238, 22485331 Fax: +91-011 22488238 E-mail: trdpat@bankofbaroda.com

Whereas the undersigned being the authorized officer of the Bank of Baroda Branch Office: Patparganj, Balaji Complex, Plot No. 5, Main Road, Panday Nagar, Opp. Mother Dairy, Delhi-110092 under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Act), 2002 and in exercise of powers conferred under section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice dated 08.10.2018, calling upon the borrower M/S SS Battery Supply Company through its Proprietor Mrs. Shashi Sharma and Guarantor Mr. Ashok Sharma to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 27.25.403.41/- (Rs. Twenty Seven Lakh Twenty Five Thousand Four Hundred Three and Paisa Forty One Only) as on 30.09.2018 with future interest, cost and incidental expenses within 60 days from the date of receipt of the said notice.

undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said rule on this 30th day of January of the Year Two Thousand and Nineteen. The Borrower/Guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with said Properties and any dealings with

[The borrower's attention is invited to provisions of sub – section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.]

**Description of the immovable Property** 1) Hypothecation of Entire Machinery Stock, Vehicles, Furniture and Fixture, Office Equipments and other movable assets of the firm available at the factory and shop at present and future.

2) Equitable Mortgaged of Property Situated at Plot No. 27, Site C, Road No. 16, Surajpur Industrial Area, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh Area measuring 450 sq. Mtr.

Name: Mr. Prakash Dattatraya Naringrekar

of authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorised representative of the class [specify class] in Form CA. Not applicable as per the information available with IRP

Date: 01.02.2019 Interim Resolution Professional in the matter of Govind Rubber Limited

Place : Mumbai

POSSESSION NOTICE [Under Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002]

The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Guarantor and the public in general that the

the said Properties will be subject to the charge of Bank of Baroda Branch Office: Patpargani, Balaji Complex, Plot No. 5, Main Road, Pandav Nagar, Opp. Mother Dairy, Delhi-110092 for an amount Rs. 27,25,403.41/- (Rs. Twenty Seven Lakh Twenty Five Thousand Four Hundred Three and Paisa Forty One Only ) and interest, cost & expenses thereon from 30.09.2018

Sd/- (Er. Rajan Mengi), **Executive Engineer** Date: 30.01.2019, Place : Gautam Budh Nagar Sd/- AuthorisedOfficer, Bank of Baroda

PWD (R&B) Const. Div. No. II, Jammu.

HRB FLORICULTURE LIMITED CIN: L01300RJ1995PLC009541 Registered Office: A-28, RAM NAGAR, SHASTRI NAGAR, JAIPUR-302016

Ph. +91-141-2303098, 2303097 (Telefax), E-mail:hrbflrltd@yahoo.com, Website: www.hrb.co.in In terms of Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 12th February, 2019 at 04:00 P.M. at the registered office of the Company situated at A-28, Ram Nagar, Shastri Nagar, Jaipur - 302 016 (Rajasthan) inter alia to consider and approve the Un-Audited Financial Results of the company for the quarter and nine months ended on 31st December, 2018 and to take on record the Limited Review

Report thereon. The said notice may be accessed on the Company's website at www.hrb.co.in and also on the website of BSE Limited at www.bseindia.com For HRB Floriculture Ltd. Krishan Kumar Parwal (Managing Director)

DIN: 00228200

RANJAN POLYSTERS LIMITED ROAD, GUWARDI, BHILWARA- 311001 (RAJASTHAN), Tel No.-01482-320925,26,27,249095 E-Mail ID: ranjanpoly@gmail.com Website: www.ranjanpolysters.com

Pursuant to Regulation 29 &47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable provisions, Notice is hereby given that a meeting of Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 13" February, 2019 at 4:00 P.M. at 11-12 K.M. Stone, Chittorgarh Road, Village-Guwardi, Bhilwara -311001(Rajasthan), Inter-alia to consider and approve the unaudited Financial Results of the Company for the Quarter and nine By order of the Board months ended on 31" December, 2018.

For RanjanPolysters Limited Place: Bhilwara

(CS Chitra Naraniwal) Company Secretary Date: 01.02.2019 Membership No. ACS-44750



Head Office: 391, The Melange, Mumbai- Pune Road, Phugewadi Pune 411012. Phone No. 7887882853, 7887882882.

Email: sambhajibank@hotmail.com. Website: www.sambhajibank.com

## **POSSESSION NOTICE Under Rule 8(1)**

The undersigned being the Authorised Officer of Dharmaveer Sambhaji

Place: Jaipur

Date: 01.02.2019

Urban Co-Op. Bank Ltd., Pimpri-Chinchwad, under the securitization and Reconstruction of financial assets and Enforcement of Security Interest Act 2002, and in exercise of powers conferred under the section 13(12) read with the rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rule 2002 issued a demand notice dt. 09.05.2018 calling upon the borrower Mr. Mohan Krishna Ghodekar & Mortgagors Mr. Sunil Ramkisan Bhutada & Jayashree Sunil Bhutada to repay Rs. 34,36,114/- + unapplied Interest + Peneal Interest + Surcharge within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is here by given to

possession of the properties described here in below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said act read with rule 8 of Security Interest (Enforcement) rules 2002 on this 28th day of January of the year 2019. The borrower/ mortgagors in particular and the public in general are here by cautioned not to deal with the properties and any dealings with the properties will be subject to the charge of Dharmaveer Sambhaji Urban

Co-op. Bank Ltd., Sangvi Branch for an amount herein above mentioned.

the borrower & the public in general that the undersigned has taken

SCHEDULE 'A' All those piece and parcel of land situated being and lying at Village Wanworie (Bhairoba Nala), S.No. 17/1, Plot No. 3/14 in the registration District Pune, Sub Disctrict Haveli, admeasuring 752.184 sq.mtr.

All those piece and parcel of premises bearing Flat No. G-403 on 4th Floor, Area admeasuring 675 sq.ft. in G wing & Building Named as Manish Darshan, Constructed on the Property described in Schedule 'A'.

SCHEDULE 'B'

**Authorised Officer** Date: 28.01.2019 Dharmaveer Sambhaji Urban Co-Op. Bank Ltd. Place: Pune

**FORM A** 

**PUBLIC ANNOUNCEMENT** (Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016) FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF GOVIND RUBBER LIMITED

**RELEVANT PARTICULARS** 

of corporate debtor

resolution process

professional

are available at:

Name of corporate debtor Govind Rubber Limited Date of incorporation of corporate debtor 23/05/1985 ROC- Mumbai, Maharashtra Authority under which corporate debtor is incorporated / registered Corporate Identity No. / Limited Liability L25110MH1985PLC036320 Identification No. of corporate debtor

5. Address of the registered office and principal **Regd. Off.:** 418, Creative Industrial office (if any) of corporate debtor Estate 72, N.M.Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai - 400011, Maharashtra. Insolvency commencement date in respect Order Delivered: 18/01/2019 Order Received: 31/01/2019 Estimated date of closure of insolvency 17<sup>th</sup> July, 2019

8. Name and registration number of the Prakash Dattatraya Naringrekar insolvency professional acting as interim IBBI/IPA-002/IP-N00270/2017-18/10783 resolution professional 9. Address and e-mail of the interim resolution 503 A. Blue Diamond CHS Ltd. Chincholi Bunder, Link Road Junction, professional, as registered with the Board

Email: prakash03041956@gmail.com 503 A. Blue Diamond CHS Ltd. Address and e-mail to be used for Chincholi Bunder, Link Road Junction. correspondence with the interim resolution Malad West, Mumbai - 400064. Phone: 9322714508/022 66991469

Malad West. Mumbai - 400064.

Phone: 9322714508/022 66991469

Email: prakash03041956@gmail.com

14<sup>th</sup> February, 2019 11. Last date for submission of claims 12. Classes of creditors, if any, under clause (b) Not applicable as per the information of sub-section (6A) of section 21, ascertained available with IRP

by the interim resolution professional 13. Names of Insolvency Professionals identified N.A.

to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class) 14. (a) Relevant Forms and (a) Web link:

https://ibbi.gov.in/downloadform.html (b) Details of authorized representatives Under 1. Forms under the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 Form B - Operational Creditor, Form C - Financial Creditor,

Form D - Workman or Employee,

Form F - Any Creditor other than Operational and Financial Creditor (b) Physical Address: N.A. Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of corporate insolvency resolution process of Govind Rubber Limited on 18th January, 2019 (Order Received Date: 31st January, 2019).

The creditors of Govind Rubber Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 14th February, 2019 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Registration No.: IBBI/IPA-002/IP-N00270/2017-18/10783

# सीबीआइ में तत्काल स्थायी निदेशक नियुक्त करे सरकार: सुप्रीम कोर्ट

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 1 फरवरी।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र से पूछा कि उसने सीबीआइ का स्थायी निदेशक नियुक्त क्यों नहीं किया है। साथ ही अदालत ने टिप्पणी की कि वह लंबे समय तक एजंसी के लिए अंतरिम प्रमुख की नियुक्ति के विरुद्ध है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमर्ति नवीन सिन्हा के पीठ ने कहा कि सीबीआइ निदेशक का पद संवेदनशील है और सरकार को अब तक इस पद पर स्थायी निदेशक की नियुक्ति कर देनी चाहिए थी।

केंद्र को तत्काल स्थायी निदेशक की नियुक्ति करनी चाहिए।अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने पीठ को बताया कि सीबीआइ के नए निदेशक के चयन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त समिति शक्रवार को बैठक करेगी। उन्होंने पीठ को यह भी कहा कि केंद्र ने आइपीएस अधिकारी एम नागेश्वर राव को

राष्ट्रीय कामधेनू

आयोग के गठन

की घोषणा

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को गाय

के दूध का उत्पादन बढ़ाने और गायों की

बेहतरी के लिए चाल रही योजनाओं को प्रभावी

ढंग से लागू करने के लिए 'राष्ट्रीय कामधेनू

उन्होंने वर्तमान वित्त वर्ष में केंद्र प्रायोजित

राष्ट्राय गाकुल ामशन क तहत संशाधित आबटन

को बढ़ाकर 750 करोड़ रुपए करने का भी ऐलान

किया जबकि बजट में इसके लिए 301.50 करोड

बजट पेश करते हुए गोयल ने कहा कि यह

आयोग गोवंश के आनुवंशिक उन्नयन को

प्रोत्साहित करने और गायों के दूध उत्पादन ए-वं

उत्पादकता को बढ़ाने की दिशा में काम करेगा।

उन्होंने कहा, यह आयोग गो-कल्याण कानुनों को

प्रभावी ढंग से लागू करने और कल्याणकारी

परीकर ने संतुलित बताया

गोवा में भाजपा एवं उसकी सहयोगी

पार्टियों ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2019-20 के

लिए अंतरिम केंद्रीय बजट की प्रशंसा की है।

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर ने इसे संतुलित बजट

बताया, जबिक गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष

विजय सरदेसाई ने इसे एक ऐसा बजट बताया है.

जो देश को प्रगति की दिशा में आगे ले जाएगा।

संसद में वित्त वर्ष 2019-20 का अंतरिम

नई दिल्ली, 1 फरवरी (भाषा) ।

आयोग' के गठन की घोषणा की।

रुपए का प्रावधान किया गया था।

योजनाओं के कार्य को भी देखेगा।

पणजी, १ फरवरी (भाषा)।

अंतरिम सीबीआइ निदेशक नियुक्त करने से पहले उच्चाधिकार समिति की मंजुरी ली थी। समिति की शुक्रवार को बैठक के बारे में अटॉर्नी जनरल के कथन के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई छह फरवरी तक स्थगित कर दी।

पीठ नागेश्वर राव को सीबीआइ का अंतरिम निदेशक नियुक्त करने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि जांच ब्युरों के निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया अब तक पूरी हो जानी चाहिए थी क्योंकि यह पहले से ही मालूम था कि जांच ब्यूरो प्रमुख जनवरी में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अटानी जनरल ने सीलबंद लिफाफे में उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक का विवरण पेश किया। इस समिति की 24 जनवरी को बैठक हुई थी जो अधूरी रह गई थी। गैर सरकारी संगठन के वकील प्रशांत भूषण ने पीठ से कहा

कि अदालत को जांच ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता के पहलू पर गौर करना चाहिए। पीठ ने भूषण से कहा-आप तत्काल नियुक्ति चाहते हैं। हमें यहीं रुकना होगा। पहले नियुक्ति होने दीजिए। यदि आपको कोई शिकायत हो कि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और इसमें पारदर्शिता नहीं थी तो आप इसे बाद में चुनौती दे सकते हैं। जांच ब्यरो के अंतरिम निदेशक के रूप में नागेश्वर राव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली इस याचिका पर सुनवाई से तीन न्यायाधीश पहले ही खुद को अलग कर चुके थे।

इसके बाद न्यायमूर्ति मिश्रा और न्यायमूर्ति सिन्हा की पीठ का गठन किया गया था। न्यायमूर्ति एनवी रमण ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। इससे पहले, प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एके सीकरी ने भी खुद को अलग कर लिया था।

# केंद्र सरकार ने पेश कीं 10 परिकल्पनाएं

नई दिल्ली, 1 फरवरी (भाषा)।

केंद्र की नरेंद्र मोदी नीत सरकार ने अगले दशक के लिए 10 सूत्री परिकल्पना पेश की है, जिसमें एक ऐसे भारत के निर्माण की बात है जहां 'गरीबी, कुपोषण, गंदगी और निरक्षरता बीते समय की बातें होगी।' लोकसभा में शुक्रवार को वित्त, कॉरपोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट 2019-20 पेश करते हए इस 10 सूत्री परिकल्पना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने 10 सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयामों को सूचीबद्ध करते हुए अगले दशक के लिए अपनी परिकल्पना पेश की है।

उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जहां गरीबी, कुपोषण, गंदगी और निरक्षरता बीते समय की बातें होगी। उन्होंने कहा कि भारत एक आधुनिक, प्रौद्योगिकी से संचालित, उच्च विकास के साथ एक समान और पारदर्शी समाज होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत अगले पांच वर्षों में पांच हजार करोड डॉलर की अर्थव्यवस्था होने की ओर अग्रसर है और इसके बाद यह 10 हजार करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि इस परिकल्पना के प्रथम आयाम के अंतर्गत 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और सहज-सखद जीवन के लिए भौतिक और सामाजिक अवसंरचना का निर्माण करना है। वित्त मंत्री ने कहा कि परिकल्पना के दूसरे आयाम के अंतर्गत एक ऐसे डिजिटल भारत का निर्माण करना है जहां हमारा युवा वर्ग डिजिटल भारत के सुजन में व्यापक स्तर पर स्टार्ट-अप और इको-सिस्टम में लाखों रोजगारों का सुजन करते हुए इसका नेतृत्व करेगा। भारत को प्रदूषणमूक्त राष्ट्र बनाने के लिए इलेक्ट्रिकल वाहनों और नवीकरण ऊर्जा पर विशेष ध्यान देना। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है, आधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ग्रामीण

वित्त मंत्री ने कहा कि भारत अगले पांच वर्षों में पांच हजार करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था होने की ओर अग्रसर है और इसके बाद यह 10 हजार करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था होगी। वर्ष 2030 तक गरीबी, गंदगी, कुपोषण, निरक्षरता होगी बीते समय की बात

औद्योगीकीकरण विस्तार के माध्यम से बडे पैमाने पर रोजगारों का सृजन करना। सभी भारतीयों के लिए सुरक्षित पेयजल के साथ स्वच्छ नदियां और लघु सिंचाई तकनीकों को अपनाने के माध्यम से सिचाई में जल का कुशल उपयोग करना। उन्होंने कहा कि सागरमाला कार्यक्रम के प्रयासों में तेजी लाने के साथ भारत के तटीय और समुद्री मार्गी के माध्यम से देश के विकास को सशक्त बनाना।

गोयल ने कहा कि हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम-गगनयान, भारत दुनिया के उपग्रहों को छोड़ने का 'लांच पैड' बन चुका है और 2022 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजना इस आयाम को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सर्वाधिक जैविक तरीके से खाद्यान्न उत्पादन और खाद्यान्न निर्यात में भारत को आत्म निर्भर बनाना और विश्व की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्यान्नों का निर्यात करने की परिकल्पना है।

इसके तहत 2030 तक स्वस्थ भारत और एक बेहतर स्वास्थ्य देखभाल व व्यापक आरोग्यकर प्रणाली के साथ-साथ आयुष्मान भारत और महिला सहभागिता भी इसका एक महत्वपूर्ण घटक होगा। उन्होंने कहा, 'भारत को न्यूनतम सरकार, अधिकतम अभिशासन' वाले एक ऐसे राष्ट्र का रूप देना जहां एक चुनी हुई सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले सहकर्मियों और अधिकारियों के अभिशासन को मुर्त रूप दिया जा सकता है।

निविदा आमंत्रण सूचना

आयुक्त, एसडीएमसी की ओर से कार्यपालक अभियंता (एम–1)–एनजीजेड, नजदीक दिल्ली

गेट नई दिल्ली द्वारा नीचे वर्णित अनुसार जनरल विंग के साथ पंजीकृत अनुमोदित एवं योग्य

ठेकेदारों से मुहरबंद मद दर/प्रतिशत दर निविदाएं आमंत्रित की जाती है। विस्तृत

एनआईटी / निविदा दस्तावेज वेबसाइट www.tenderwizard.com/SOUTHDMCETENDER र ऑनलाइन देखें एवं डाउनलोड किये जा सकते हैं। डेंस कॉर्पेट के मामले में डेंस कार्पेटिंग

निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने की अंतिम तिथि: 12.02.2019 को 14:00 बजे तक,

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि : 12.02.2019 को 15:00 बजे तक, निविदा कीमत

एवं धरोहर राशि डी.डी. जमा करने की अंतिम तिथिः 13.02.2019 को 15:00 बजे तक।

कार्य का नाम: सी-40एस एनजीजेड में गांव खेडा डाबर में धरमपाल के मकान से मंदिर

अनुमानित लागतः रु. 5870000 / — धरोहर राशिः रु. 117400 / –

अनुमानित लागतः रु. 63,77000 / — घरोहर राशिः रु. 1,27,600 / –

अनुमानित लागतः रु. 1,34,53,000 / — धरोहर राशिः रु. 2,69,100 / –

लागतः रु. 1,39,96,000 / — धरोहर राशिः रु. 2,80,000 / —

अनुमानित लागतः रु. २,६९,२१,००० / – घरोहर राशिः रु. 5,38,500 / –

तक बी / डब्ल्यू के प्रावधान द्वारा ड्रेन का निर्माण। निविदा सं. : 2018–19/32–01,

कार्य का नामः सी-40एस एनजीजेड में गांव खेडा डाबर में चौपाल से फिरनी रोड

तक आरएमसी के प्रावधान द्वारा सडक का निर्माण। निविदा सं : 2018-19/32-02

कार्ये का नाम : सी-40एस एनजीजेंड में गांव शिकारपुर में हरिजन चौपाल से मेन बस स्टेंड

तक आरएमसी के प्रावधान द्वारा सङ्क का निर्माण। निविदा सं : 2018-19/32-03,

कार्य का नामः सी-40एस एनजीजेड में गांव दौराला में सुडान फार्म से वसंत फार्म

तक एम / पी के प्रावधान द्वारा सड़क का निर्माण । निविदा से.: 2018-19/32-04,

कार्य का नामः सी-40एस एनजीजेंड में गांव रेवला खानपुर में रत्ती राम के मकान से

झटिकरा रोड तक आरएमसी के प्रावधान द्वारा बीएम+एसी और साइड ब्रिम के

प्रावधान द्वारा सड़क का निर्माण। निविदा सं. : 2018-19/32-05, अनुमानित

कार्य का नामः सी-40एस एनजीजेड में गांव हसनपुर में मेन घुम्मनहेडा रोड से

हसनपुर फिरनी तक आरएमसी के प्रावधान द्वारा बीएम+एसी और साइड ब्रिम और

साइड ब्रिम के प्रावधान द्वारा सड़क का निर्माण। निविदा सं.: 2018-19/32-06,

कार्ये का नामः सी-133 एनजीजेड में शनि मंदिर कंगनहेड़ी से बदुसराय गांव तक

डेंस कार्पेट (बीएम+एसी) के प्रावधान द्वारा सड़क का निर्माण। **निविदा सं** 

2018-19/32-07, अनुमानित लागतः रु. 56,71,000/- घरोहर राशिः रु. 1,13,500/-

समी विस्तृत विवरण वेबसाइट www.tenderwizard.com/SOUTHDMCETENDER पर उपलब्ध है।

अनुमानित लागतः रु. 64,90,000 / — धरोहर राशिः रु. 1,29,800 / —

वित्तीय निविदा खुलने की तिथि : 13.02.2019 को 15:30 बजे।

दिनांक: 29.01.2019

### सरकार ने कोर्ट को बताया, नीरव का दक्षिणी दिल्ली नगर निगम कार्यालय कार्यपालक अभियंता. एम—I बंगला गिराने की प्रक्रिया शुरू हो गई नजफगढ़ जोन, नजदीक दिल्ली गेट नजफगढ़, नई दिल्ली-43 सं. ईई(एम-1)/एनजीजेड/एसडीएमसी/2018-19/32

मुंबई, 1 फरवरी। महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को बंबई हाई कोर्ट को बताया कि भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के अलीबाग स्थित अवैध बंगले को गिराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हाई कोर्ट ने रायगढ़ जिले के अलीबाग में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश जारी किया था। मुंबई से लगी हुई यह जगह छुट्टियां मनाने के लिए लोकप्रिय है। सरकार की ओर से अदालत में पेश हुए वकील पीपी काकड़े ने मुख्य न्यायाधीश एनएच पाटील के नेतृत्व वाले एक खंडपीठ को बताया कि जिला कलेक्टर ने कार्रवाई शरू कर दी है। (भाषा)

AXIS BANK अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये

बिक्री सचना

नियंत्रण कार्यालयः एक्सिस हाउस, बाम्बे डाइंग कम्पाउण्ड, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली,

प्रतिभूत हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सुचन

एतदद्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारन्टरों को सचित किया जाता है कि मै. कमार इन्फ्र प्रॉजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड, श्री नरिन्दर कुमार तथा श्रीमती इन्द्र बाला से प्रतिभृत क्रेडीटर के बकाया राशि की भुगतान एवं अथवा वसूली की वास्तविक तिथिँ तक यथा लागू ब्याज, अनुषांगिक खर्चे, लागतों, चार्जेज आदि के साथ 25.1.2019 को बकया रु. 1.24.00,000/- की वसली के लिये प्रतिभंत क्रेडीटर के पास गिरवी रखी गई/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल संपत्ति जिसका प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा किया गया है, की 14.3.2019 को एक्सिस हाउस. टावर-2, 2रा तल, आई-14, सेक्टर-128, नोएडा एक्स्प्रैसवे, जेपी ग्रीन्स विशटाउन, नोएडा (उ.प्र.)-201301 मे 11.30 बजे पर्वा. में ''जैसा है जहां है'', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो भी वहां है'' आधार पर बिक्री की जाएगी आरक्षित मुल्य रु. १,००,००,०००/- तथा धरोहर राशि रु. १०,००,०००/- है। ईएमडी सहित महरबंद प्रस्ताव/ निविदा

कब्जा में ली गई तथा बिक्री की जाने वाली अचल सम्पत्ति प्रतिभृत परिसंपत्तिय विवरण 915030028962588 | 1. श्री नरिन्दर कुमार तथा सुश्री इन्दु बाला के नाम में भृतल, अपार्टमेन्ट नं. के-004, एसएमई (ओवर ड्राफ्ट ब्लॉक जे-1, गॉल्फ ग्रीन्स, प्लॉट नें. जीएच-6, क्रॉसिंग रिपब्लिक, ग्राम डुण्डाहेरा, बंजनस एम पावर स्काम)|गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में आवासीय संपत्ति, माप 1725 वर्ग फोट के साथ 238 व वर्ग फीट के लॉन एरिया का इक्विटैबल मार्टगैज। बैंक को ज्ञात अधिभार, 2. सश्री इन्द बाला के नाम में भृतल, अपार्टमेन्ट नं. के-004, ब्लॉक जे-1, गोल्फ यदि कोई हो ग्रीन्स, प्लॉट नं. जीएच-6, क्रॉसिंग रिपब्लिक, ग्राम डुण्डाहेरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

में आवासीय संपत्ति, माप 1725 वर्ग फीट के साथ 352 वर्ग फीट के लॉन एरिया का डिक्वटैबल मार्टगैज। बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया प्रतिभृत क्रेडीटर की वेबसाईट अर्थात् https://www.axis-

bank.com/auction-notices में दी गई लिंक देखें

तिथि: 31.01.2019

के साथ बोली जमा करने की अंतिम तिथि. समय एवं स्थानः उपरोक्त पते पर 13.3.2018 को।

स्थानः नोएडा

G. K. CONSULTANTS LIMITED

Regd. Office: 302, G. K. House,

187-A, Sant Nagar, East of Kailash,

New Delhi-110 065 Tel:+91-11-26489431

Fax:+91-11-26489299

Web: www.gkconsultantsltd.com

CIN: L74140DL1988PLC034109

NOTICE

In terms of provisions of Regulation

47(1)(a) in read with Regulation 29(1)(a) of the Securities and Exchange Board of

India (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015,

Notice is hereby given that the meeting

of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, the

08" February, 2019 at 3.30 P.M. at the

Registered Office of the Company to

consider and to take on record the

Quarterly Unaudited Financial Results

as on 31" December, 2018 pursuant to

the Regulation 33 of LODR Regulations.

Place: New Delhi

Date: 01.02.2019

By order of the Board

CS. SHILPA VERMA

M.NO. A32810

Company Secreatary

G. K. CONSULTANTS LIMITED

हस्ता./- (प्राधिकत अधिकारी) एक्सिस बैंक लि.

### बैंक ऑफ़ बड़ीदा Bank of Baroda

पटपड़गंज शाखा, 5, श्री बालाजी कॉम्प्लैक्स, मदर डेयरी के निकट, पटपड़गंज, दिल्ली-110092, भारत फोन: +91-011-22488238, 22485331, फैक्स: +91-011-22488238 ईमेलः trdpat@bankofbaroda.com

कब्जा सचना [प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक आफ बड़ौदा, शाखा कार्यालयः पटपडगंज, बालाजी कॉम्प्लैक्स, प्लॉट नं. 5, मैन रोड, पांडव नगर, मदर डेयरी के सामने दिल्ली-110092 के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 8.10.2018 जारी कर ऋणधारक मै. एसएस बैटरी सप्लाई कंपनी, द्वारा उसके प्रॉप्राईटर श्रीमती शशि शर्मा तथा गारन्टर श्री अशोक शर्मों को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 30.9.2018 को रु. 27,25,403.41 (रुपए सत्ताईस लाख पच्चीस हजार चार सौ तीन एवं पैसे इकतालिस मात्र) के साथ आगे के ब्याज, लागत तथा अनषांगिक खर्चे वापस लौटाने का निर्देश

क्र.सं. (1 से 7 तक) लेखा शीर्षः XL-VIII-Z-f

Ro No.183/DPI/S/2018-19

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/ गारन्टरों तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि आज, 30 जनवरी दो हजार उन्नीस को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/ गारन्टरों तथा आम जनता को एतदुद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 27,25,403.41 (रुपए सत्ताईस लाख पच्चीस हजार चार सौ तीन एवं पैसे इकतालिस मात्र) तथा 30.9.2018 से उस पर ब्याज, लागत एवं खर्चे के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कार्यालयः पटपड़गंज, बालाजी कॉम्प्लैक्स, प्लॉट नं. 5, मैन रोड, पांडव नगर, मदर डेयरी के सामने दिल्ली-110092 के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

1) वर्तमान तथा भविष्य में फैक्ट्री तथा शॉप में उपलब्ध संपूर्ण मशीनरी स्टॉक, व्हीकल्स, फर्नीचर एवं साजो सामान, कार्यालय उपकरणों तथा अन्य चल परिसंपत्तियों का हाइपोथेकेशन।

2) प्लॉट नं. 27, साईट सी, रोड नं. 16, सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र, गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल माप 450 वर्ग मी. में स्थित संपत्ति का इक्विटेबल मार्टगैज।

तिथि: 30.1.2019, हस्ता./-प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बडौदा स्थानः गौतम बुध नगर

कार्यपालक अभियंता एम-। नजफगढ जोन / एसडीएमसी

# कांग्रेस की आपत्ति नजरअंदाज, सरकार जल्द कर सकती है सीबीआइ निदेशक की घोषणा

नई दिल्ली, १ फरवरी (भाषा)।

सीबीआइ के निदेशक को चुनने के लिए शुक्रवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की बैठक में प्रस्तावित नामों को लेकर समिति के सदस्य कांग्रेस नेता मिल्लकार्जुन खरगे की आपत्ति के बावजूद केंद्र जल्द ही एंजंसी के अगले प्रमुख के नाम की घोषणा कर सकता है। अधिकारियों ने बताया कि समझा जाता है कि तीन सदस्यीय चयन समिति की दुसरी बैठक के दौरान सरकार ने ऐसे कुछ अधिकारियों के नाम सामने रखे, जिन्हें सीबीआइ निदेशक पद पर नियुक्ति के योग्य माना गया है। उन्होंने बताया कि हालांकि इन नामों पर खरगे ने एतराज जताया।

समझा जाता है कि पद के लिए वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी जावेद अहमद, रजनी कांत मिश्रा, एसएस देसवाल और शिवानंद झा का नाम दौड़ में सबसे आगे है। चयन समिति की बैठक का ब्योरा दिए बिना एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि

बैठक के दौरान कोई फैसला नहीं हो पाया। शुक्रवार को प्रधानमंत्री के आवास पर हुई

बैठक एक घंटे से ज्यादा समय तक चली। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ओर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खरगे बैठक में शामिल हए।

पद के लिए जिन अधिकारियों का नाम आगे चल रहा है उसमें अहमद उत्तर प्रदेश कैडर के 1984 बैच के आइपीएस अधिकारी हैं जो वर्तमान में राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान के प्रमुख हैं। उसी बैच के मिश्रा सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के प्रमुख हैं। हरियाणा कैडर के 1984 बैच के आइपीएस देसवाल भारत-तिब्बत सीमा पलिस (आइटीबीपी) के महानिदेशक हैं जबिक 1983 बैच के आइपीएस अधिकारी झा गजरात पलिस के प्रमख हैं। इससे पहले 24 जनवरी को बैठक हुई थी लेकिन सीबीआई प्रमुख पर कोई फैसला नहीं हो पाया था। पिछली बैठक में समिति के सदस्यों से कुछ योग्य अधिकारियों की सूची और उनकी फाइलें साझा की गईं थीं।

# बस्सी के तबादले पर छह हफ्ते में जवाब दें नागेश्वर राव

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 1 फरवरी।

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ के पुलिस उपाधीक्षक एके बस्सी का तबादला पोर्टब्लेयर किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यरो और उसके अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव से जवाब मांगा है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के पीठ ने पुलिस उपाधीक्षक बस्सी की याचिका पर केंद्रीय जांच एजंसी और उसके अंतरिम निदेशक को नोटिस जारी किया। पीठ ने उनसे छह हफ्ते में जवाब मांगा है।

बस्सी की ओर से वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा कि यह ऐसा मामला है जो सीबीआइ के प्रशासन पर सवाल उठाता है। धवन ने कहा कि शीर्ष अदालत के आठ जनवरी के फैसले के बाद जांच ब्यरो के निदेशक आलोक वर्मा को दिए गए एक ज्ञापन पर नौ जनवरी को बस्सी को वापस दिल्ली लाया गया था परंत 11 जनवरी को उनका फिर पोर्ट ब्लेयर तबादला कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यह मामला उस जांच

को भी प्रभावित करेगा जो यह अधिकारी कर रहा था। बस्सी ने 21 जनवरी को अपने तबादले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि यह दुर्भावना से प्रेरित है। बस्सी के तबादले का आदेश 11 जनवरी को जारी हुआ था। इस आदेश को चुनौती देते हुए बस्सी ने कहा कि पूर्व सीबीआइ निदेशक आलोक कुमार वर्मा की अपील पर शीर्ष अदालत ने जो आदेश जारी किए थे, यह उसका उल्लंघन है।

अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले के जांच अधिकारी बस्सी ने कहा कि सीबीआइ के वर्तमान अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव उन्हें निशाना बना रहे हैं। राव सीबीआइ में मौजूद उन तत्वों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो नहीं चाहते कि वह अस्थाना के खिलाफ प्राथमिकी की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो। बस्सी ने कहा कि राव ने 24 अक्तबर 2018 को एक आदेश जारी कर उनका तबादला पोर्ट ब्लेयर कर दिया। राव के ही कहने पर उन्हें, सीबीआइ के पर्व निदेशक आलाक वर्मा के मामले में इस अदालत के फैसले को नजरअंदाज कर अंडमान निकोबार द्वीपसमृह भेजा जा रहा है।

साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड 37, दूसरा तल, रानी झॉसी रोड, मोतिया पहाड़गंज, दिल्ली-110055 (ई) cbnl.delhi@gmail.com

( डब्ल्यू ) www.sadhnabroadcast.com CIN: L92100DL1994PLC059093

पेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 29 तथा विनियमन 47 वे रवरी. 2019 को 4 बजे अप. में कम्पनी के पंजीकत कार्यालय हो समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर त्रचार, अनुमोदन कर उसे अभिलेख लिए जाएंगे तथा आवश्यक समझे जाने वाले किसी अन्य व्यवसायों पर विचार किये जाएंगे।

साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के लिये

रोहिणी, दिल्ली-11008

(तेजिन्दर कौर DIN: 0679957 एलआईजी फ्लैट्स, पॉकेट-डी 🕫

एसपीएस इन्टरनेशनल लिमिटेड

CIN: L74140HR1993PLC031900 पंजी. कार्यालयः प्लॉट नं. 197, सेक्टर 68, आई.एम.टी., फरीदाबाद, हरियाणा-121004 ਟੇलੀ ਜਂ. 011-69999159 ईमेल आईडी: radhamony.nair@gmail.com

वेबसाईटः www.spsintl.co.in सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47(1)(ए) के अनपालन में एतदद्वार सचित किया जाता है कि एसपीएस इन्टरनेशनल लिमिटेड ''कम्पनी'') के निदेशक मंडल की एक बैठक मंगलवार 12 फरवरी, 2019 को 4.00 बजे अप. में प्लॉट नं. 197 सेक्टर 68, आई.एम.टी. फरीदाबाद, हरियाणा-121004 कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर, 2018 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के लिये कम्पनी की सीमित समीक्षा रिपोर्ट वे साथ अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन क

एसपीएस इन्टरनेशनल लिमिटड के लिये (कोमल जैन) (कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

AUTO PINS (INDIA) LIMITED Registered Office: 2776 Pyarelal Motor Market Kashmere Gate, Delhi-110006

Landline: (91)-11-23978748 CIN: L34300DL1975PLC007994 Web: http://www.autopinsindia.com E-Mail: autopins@vsnl.com

NOTICE Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is hereby informed that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday. 14th February, 2019 at 3:00 P.M. at the Registered Office of the Company at 2776 Pyarelal Motor Market Kashmere Gate, Delhi-110006, to consider and approve, inter-alia, the unaudited Standalone Financial Results of the Company for the nine months & third quarter ended 31st December,

Pursuant to the Company's Code of Conduct framed in accordance with SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 ('the code'), Trading Window for dealing in shares of the Company, for persons specified under the Code, shall remain closed from Wednesday, February 06, 2019 to Saturday, February 16, 2019, (both days inclusive) The said notice may be accessed on the Company's website www.autopinsindia.com and of the Stock Exchange website www.bseindia.com By Order of the Board For Auto Pins (India) Limited

Manisha Goswami Place: Delhi Company Secretary & Date: 01.02.2019 Compliance Officer

Sleepwell

(Rs. in Crore)

#### **UN-AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS** FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2018 Quarter Ended Nine Months Ended Quarter Ended **Particulars** 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2017 (Un-Audited) (Un-Audited) (Un-Audited) 536.64 Total Income from Operations 577.40 1,627.03 Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or 56.50 137.86 55.08 Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional 56.50 137.86 55.08 and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or 39.11 38.93 95.88 Extraordinary items) 38.87 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / 36.14 (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income Equity Share Capital (Face value of Rs. 5/- each) 24.39 24.39 24.39 572.87 572.87 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited 572.87 Balance Sheet (As on 31st March 18) (As on 31st March 18) (As on 31st March 18) Earnings Per Share (of Rs. 5/- each) (for continuing and discontinued operations) (not annualized)-7.98 19.65 8.02 7.98 Diluted: 19.65 8.02

Note:

1. The above is an extract of the detailed format of quarterly and nine months ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly and nine months ended Financial Results are available on the Company website www.sheelafoam.com and on the website of stock exchanges www.nseindia.com and www.bseindia.com.

The above Consolidated audited Financial Results have been reviewed by the Audit Committee of the Board in its meeting held on February 1, 2019 and approved and taken on record by the Board of Directors of the Company in its meeting held on February 1, 2019. Further in accordance with the requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Statutory Auditors have carried out the Review and the Review Report has been approved by the Board.

Previous quarter/year figures have been regrouped/restated wherever necessary. Key Standalone financial information is given below:

(Rs. in Crore)

SI. No.	Particulars	Quarter Ended 31.12.2018 (Un-Audited)	Nine Months Ended 31.12.2018 (Un-Audited)	Quarter Ended 31.12.2017 (Un-Audited)
1	Total Income from Operations	495.64	1,384.97	456.90
2	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	49.98	130.16	51.61
3	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	34.48	89.95	35.66

For Sheela Foam Limited

Noida, February 1, 2019

(Rahul Gautam) Chairman and Managing Director

SHEELA FOAM LIMITED Regd. office: C-55, Preet Vihar, Vikas Marg, New Delhi-110092 • Corporate Office: 37/2, Site IV, Sahibabad Industrial

Area, Ghaziabad-201010 • Tel: 0120-4162200, Fax:0120-4162282 • Web: www.sheelafoam.com • CIN L74899DL1971PLC005679



EK KOSHISH, MAA JAISA AARAM DENE KI...

A Sheela Foam Product

www.sleepwellproducts.com • Toll Free: 1800 103 6664